

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09022025-260868
SG-DL-E-09022025-260868असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	दिल्ली, रविवार, फरवरी 9, 2025/माघ 20, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 384
No. 13]	DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 9, 2025/MAGHA 20, 1946	[N. C. T. D. No. 384

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2025

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(1)/2025/1566.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2025

सं. 308/दिल्ली-वि.स./ 2025.—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा 10 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना सं. मु.च.अ./ चु.सं./102/(1)/2025/1328 के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के लिए एक नई विधान सभा के गठन के लिए एक साधारण निर्वाचन कराया गया है; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसरों द्वारा घोषित किए जा चुके हैं;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दल सम्बद्धता, यदि कोई हो सहित, निर्वाचित सदस्यों के नाम, एतद्वारा अधिसूचना की अनुसूची में अधिसूचित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 308/ दिल्ली-वि.स./2025

दिनांक 09 फरवरी 2025 की अनुसूची

राज्य का नाम : राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1- नरेला	राज करन खत्री	भारतीय जनता पार्टी
2- बुराड़ी	संजीव झा	आम आदमी पार्टी
3- तिमारपुर	सूर्य प्रकाश खत्री	भारतीय जनता पार्टी
4- आदर्श नगर	राज कुमार भाटिया	भारतीय जनता पार्टी
5- बादली	अहिर दीपक चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
6- रिठाला	कुलवन्त राणा	भारतीय जनता पार्टी
7- बवाना (अ0जा0)	रविन्द्र इन्द्राज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
8- मुन्डका	गजेन्द्र दराल	भारतीय जनता पार्टी
9- किरारी	अनिल झा	आम आदमी पार्टी
10- सुल्तानपुर माजरा (अ0जा0)	मुकेश कुमार अहलावत	आम आदमी पार्टी
11- नांगलोई जाट	मनोज कुमार शौकीन	भारतीय जनता पार्टी
12- मंगोल पुरी (अ0जा0)	राज कुमार चौहान	भारतीय जनता पार्टी
13- रोहिणी	विजेन्द्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
14- शालीमार बाग	रेखा गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15- शकूर बस्ती	करनैल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16- त्रिनगर	तिलक राम गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
17- वजीर पुर	पूनम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
18- माडल टाउन	अशोक गोयल	भारतीय जनता पार्टी
19- सदर बाजार	सोम दत्त	आम आदमी पार्टी
20- चाँदनी चौक	पुनरदीप सिंह साहनी (सैबी)	आम आदमी पार्टी
21- मटिया महल	आले मोहम्मद इकबाल	आम आदमी पार्टी
22- बल्लीमारन	इमरान हुसैन	आम आदमी पार्टी
23- करोल बाग (अ0जा0)	विशेष रवि	आम आदमी पार्टी
24- पटेल नगर (अ0जा0)	प्रवेश रत्न	आम आदमी पार्टी
25- मोती नगर	हरीश खुराना	भारतीय जनता पार्टी
26- मादी पुर(अ0जा0)	कैलाश गंगवाल	भारतीय जनता पार्टी
27- राजौरी गार्डन	मनजिंदर सिंह सिरसा	भारतीय जनता पार्टी
28- हरि नगर	श्याम शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
29- तिलक नगर	जरनैल सिंह	आम आदमी पार्टी
30- जनक पुरी	आशीष सूद	भारतीय जनता पार्टी
31- विकास पुरी	पंकज कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
32- उत्तम नगर	पवन शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
33- द्वारका	प्रद्युम्न सिंह राजपूत	भारतीय जनता पार्टी

34- मटिआला	सन्दीप सहरावत	भारतीय जनता पार्टी
35- नजफगढ़	नीलम पहलवान	भारतीय जनता पार्टी
36- बिजवासन	कैलाश गहलोत	भारतीय जनता पार्टी
37- पालम	कुलदीप सोलंकी	भारतीय जनता पार्टी
38- दिल्ली छावनी	विवेन्द्र सिंह कादियान	आम आदमी पार्टी
39- राजिन्द्र नगर	उमंग बजाज	भारतीय जनता पार्टी
40- नई दिल्ली	प्रवेश साहिब सिंह	भारतीय जनता पार्टी
41- जंगपुरा	तरविन्दर सिंह मारवाह	भारतीय जनता पार्टी
42- कस्तूरबा नगर	नीरज बैसोया	भारतीय जनता पार्टी
43- मालवीय नगर	सतीश उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
44- आर0 के0 पुरम	अनिल कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
45- महारौली	गजेन्द्र सिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
46- छतरपुर	करतार सिंह तंवर	भारतीय जनता पार्टी
47- देवली (अ0जा0)	प्रेम चौहान	आम आदमी पार्टी
48- अम्बेडकर नगर (अ0जा0)	डा. अजय दत्त	आम आदमी पार्टी
49- संगम विहार	चन्दन कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
50- ग्रेटर कैलाश	शिखा रॉय	भारतीय जनता पार्टी
51- कालकाजी	आतिशी	आम आदमी पार्टी
52- तुगलकाबाद	सही राम	आम आदमी पार्टी
53- बदरपुर	राम सिंह नेताजी	आम आदमी पार्टी
54- ओखला	अमानतुल्लाह खान	आम आदमी पार्टी
55- त्रिलोकपुरी (अ0जा0)	रवि कान्त	भारतीय जनता पार्टी
56- कोण्डली (अ0जा0)	कुलदीप कुमार (मोन्)	आम आदमी पार्टी
57- पटपड़गंज	रविन्दर सिंह नेगी (रवि नेगी)	भारतीय जनता पार्टी
58- लक्ष्मी नगर	अभय वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
59- विश्वास नगर	ओम प्रकाश शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
60- कृष्णा नगर	डा. अनिल गोयल	भारतीय जनता पार्टी
61- गाँधी नगर	अरविन्दर सिंह लवली	भारतीय जनता पार्टी
62- शाहदरा	संजय गोयल	भारतीय जनता पार्टी
63- सीमापुरी (अ0जा0)	वीर सिंह धिंगान	आम आदमी पार्टी
64- रोहतास नगर	जितेन्द्र महाजन	भारतीय जनता पार्टी
65- सीलमपुर	चौधरी जुबैर अहमद	आम आदमी पार्टी
66- घोण्डा	अजय महावर	भारतीय जनता पार्टी
67- बाबरपुर	गोपाल राय	आम आदमी पार्टी
68- गोकलपुर (अ0जा0)	सुरेन्द्र कुमार	आम आदमी पार्टी
69- मुस्तफाबाद	मोहन सिंह बिष्ट	भारतीय जनता पार्टी
70- करावल नगर	कपिल मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी

आदेश से,

अजय कुमार, प्रधान सचिव

आदेश से,

आर एलिस वाज, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 9th February, 2025

No. CEO/COE/102(1)/2025/1566.—The following is published for general information:—**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2025

No. 308/DL-LA/2025.—Whereas, in pursuance of Notification No. CEO/COE/102(1)/2025/1328, issued by the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi on 10th January 2025, under Sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies in the said General Election, have been declared by the Returning Officers concerned.

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the Members elected for these constituencies, along with their party affiliation, if any, in the SCHEDULE to the Notification.

SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 308/DL-LA/2020, DATED 09th February, 2025 OF**THE ELECTION COMMISSION OF INDIA****Name of the State: National Capital Territory of Delhi**

No. & Name of Assembly Constituency	Name of the Elected Member	Party Affiliation (if any)
1- Nerela	Raj Karan Khatri	Bharatiya Janata Party
2- Burari	Sanjeev Jha	Aam Aadmi Party
3- Timarpur	Surya Prakash Khatri	Bharatiya Janata Party
4- Adarsh Nagar	Raj Kumar Bhatia	Bharatiya Janata Party
5- Badli	Aahir Deepak Chaudhary	Bharatiya Janata Party
6- Rithala	Kulwant Rana	Bharatiya Janata Party
7- Bawana (SC)	Ravinder Indraj Singh	Bharatiya Janata Party
8- Mundka	Gajender Drall	Bharatiya Janata Party
9- Kirari	Anil Jha	Aam Aadmi Party
10- Sultan Pur Majra (SC)	Mukesh Kumar Ahlawat	Aam Aadmi Party
11- Nangloi Jat	Manoj Kumar Shokeen	Bharatiya Janata Party
12- Mangol Puri (SC)	Raj Kumar Chauhan	Bharatiya Janata Party
13- Rohini	Vijender Gupta	Bharatiya Janata Party
14- Shalimar Bagh	Rekha Gupta	Bharatiya Janata Party
15- Shakur Basti	Karnail Singh	Bharatiya Janata Party
16- Tri Nagar	Tilak Ram Gupta	Bharatiya Janata Party
17- Wazirpur	Poonam Sharma	Bharatiya Janata Party
18- Model Town	Ashok Goel	Bharatiya Janata Party
19- Sadar Bazar	Som Dutt	Aam Aadmi Party
20- Chandni Chowk	Punardeep Singh Sawhney (Sabby)	Aam Aadmi Party
21- Matia Mahal	Aaley Mohammed Iqbal	Aam Aadmi Party
22- Ballimaran	Imran Hussain	Aam Aadmi Party
23- Karol Bagh (SC)	Vishesh Ravi	Aam Aadmi Party
24- Patel Nagar (SC)	Pravesh Ratn	Aam Aadmi Party
25- Moti Nagar	Harish Khurana	Bharatiya Janata Party
26- Madipur (SC)	Kailash Gangwal	Bharatiya Janata Party
27- Rajouri Garden	Manjinder Singh Sirsa	Bharatiya Janata Party
28- Hari Nagar	Shyam Sharma	Bharatiya Janata Party
29- Tilak Nagar	Jarnail Singh	Aam Aadmi Party
30- Janakpuri	Ashish Sood	Bharatiya Janata Party
31- Vikaspuri	Pankaj Kumar Singh	Bharatiya Janata Party

32- Uttam Nagar	Pawan Sharma	Bharatiya Janata Party
33- Dwarka	Parduyrn Singh Rajput	Bharatiya Janata Party
34- Matiala	Sandeep Sehrawat	Bharatiya Janata Party
35- Najafgarh	Neelam Pahalwan	Bharatiya Janata Party
36- Bijwasan	Kailash Gahlot	Bharatiya Janata Party
37- Palam	Kuldeep Solanki	Bharatiya Janata Party
38- Delhi Cantt	Virender Singh Kadian	Aam Aadmi Party
39- Rajinder Nagar	Umang Bajaj	Bharatiya Janata Party
40- New Delhi	Parvesh Sahib Singh	Bharatiya Janata Party
41- Jangpura	Tarvinder Singh Marwah	Bharatiya Janata Party
42- Kasturba Nagar	Neeraj Basoya	Bharatiya Janata Party
43- Malviya Nagar	Satish Upadhyay	Bharatiya Janata Party
44- R.K. Puram	Anil Kumar Sharma	Bharatiya Janata Party
45- Mehrauli	Gajender Singh Yadav	Bharatiya Janata Party
46- Chhatrapur	Kartar Singh Tanwar	Bharatiya Janata Party
47- Deoli (SC)	Prem Chauhan	Aam Aadmi Party
48- Ambedkar Nagar (SC)	Dr. Ajay Dutt	Aam Aadmi Party
49- Sangam Vihar	Chandan Kumar Choudhary	Bharatiya Janata Party
50- Greater Kailash	Shikha Roy	Bharatiya Janata Party
51- Kalkaji	Atishi	Aam Aadmi Party
52- Tughlakabad	Sahi Ram	Aam Aadmi Party
53- Badarpur	Ram Singh Netaji	Aam Aadmi Party
54- Okhla	Amanatullah Khan	Aam Aadmi Party
55- Trilokpuri (SC)	Ravi Kant	Bharatiya Janata Party
56- Kondli (SC)	Kuldeep Kumar (Monu)	Aam Aadmi Party
57- Patparganj	Ravinder Singh Negi (Ravi Negi)	Bharatiya Janata Party
58- Laxmi Nagar	Abhay Verma	Bharatiya Janata Party
59- Vishwas Nagar	Om Prakash Sharma	Bharatiya Janata Party
60- Krishna Nagar	Dr Anil Goyal	Bharatiya Janata Party
61- Gandhi Nagar	Arvinder Singh Lovely	Bharatiya Janata Party
62- Shahdara	Sanjay Goyal	Bharatiya Janata Party
63- Seemapuri (SC)	Veer Singh Dhingan	Aam Aadmi Party
64- Rohtas Nagar	Jitender Mahajan	Bharatiya Janata Party
65- Seelam Pur	Chaudhary Zubair Ahmad	Aam Aadmi Party
66- Ghonda	Ajay Mahawar	Bharatiya Janata Party
67- Babarpur	Gopal Rai	Aam Aadmi Party
68- Gokalpur (SC)	Surendra Kumar	Aam Aadmi Party
69- Mustafabad	Mohan Singh Bisht	Bharatiya Janata Party
70- Karawal Nagar	Kapil Mishra	Bharatiya Janata Party

By Order,

AJOY KUMAR, Principal Secy.

By Order,

R ALICE VAZ, Chief Electoral Officer, Delhi